

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2019—भाद्र 29, शक 1941

आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2019

आदेश

क्र. एफ-20-02-2013-3-पच्चीस.—मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-20-02-2013-3-पच्चीस, दिनांक 4 सितम्बर 2019 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, आदिम जाति मंत्रणा परिषद् के सदस्य के रूप में सरल क्रमांक-10 पर नामांकित सदस्य श्री निलेश पुसाराम उइके, विधायक, विधान सभा क्षेत्र-128 पांडुणा (छिंदवाड़ा) के स्थान पर डॉ. अशोक मर्सकोले, विधायक, विधान सभा क्षेत्र-106 निवास (मण्डला) को नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा शर्मा, उपसचिव.